



इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय

Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya

कृषि विज्ञान केन्द्र, भलेसर, महासमुन्द - 493445



Krishi Vigyan Kendra, Bhalesar, Mahasamund 493445

Website: www.kvkmahasamundcg.org, E-mail: kvkmahasamund@gmail.com, Phone 79871-63413

क्रमांक/कृ.वि.के./वेतन/महासमुन्द/2020-21/92

दिनांक : 05.05.2020

संविदा नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञापन का प्रारूप

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र, महासमुन्द (छ.ग.) में निम्नलिखित रिक्त पद पर निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, महासमुन्द (छ.ग.) को संबोधित साधारण डाक/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से दिनांक 04-06-2020 सायंकाल 5.00 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से विज्ञापन में दर्शित निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक द्वारा बिलंब से प्राप्त आवेदन पत्र पर कृषि विज्ञान केन्द्र, महासमुन्द (छ.ग.) जिम्मेदार नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में सीधे/खुला अथवा कोरियर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगें। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	पदनाम	संविदा का निश्चित वेतन (रूपयें प्रति माह)	श्रेणिवार आरक्षित पदों की संख्या				
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल
1	एग्रोमेट आब्जर्वर (संविदा)	14,200/-	01	-	-	-	01

आवेदन की अंतिम तिथि 04.06.2020

आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप एवं विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिसमें विज्ञापित पदों के लिये आवश्यक शैक्षणिक व अन्य अर्हताएँ, आयु, चयन की प्रक्रिया इत्यादि कार्यालय के सूचना पटल व विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igau.edu.in पर देखी जा सकती है।

01. **आवश्यक अर्हता:** इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रबंधन मंडल द्वारा स्वीकृत गैर शैक्षणिक सेवा भर्ती विनियम, 2016 में विभिन्न गैर-शैक्षणिक पद के लिये आवश्यक अर्हता निर्धारित की गई है। एग्रोमेट आब्जर्वर के पद की योग्यता एवं आवश्यक अर्हता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती विनियम, 2016 में वर्णित मेट्रोडोलॉजिकल आब्जर्वर के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के समान निम्नानुसार रखा जाना है:-

क्र.	पदनाम एवं वेतनबैंड+ग्रेड पे	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
01	एग्रोमेट आब्जर्वर (संविदा) 5200-20200+2000/-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस. सी. न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. (कृषि/उद्यानिकी/कृषि बायोटेक्नालाजी) अथवा बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी) में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि तथा कम्प्यूटर आपरेटर का बुनियादी ज्ञान।

02. **स्कोर-कार्ड:** विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक/स्था-04/नस्ती क्र.-114/2020/6414 दिनांक 20.02.2020 द्वारा संविदा पदों पर भर्ती हेतु स्कोर-कार्ड को एग्रोमेट आब्जर्वर पद पर संविदा के आधार पर सीधी भर्ती के लिये लागू किया जायेगा।
03. **संविदा वेतन :** इस पद का वेतनबैंड 5200-20200+2000 ग्रेड पे है। सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार इस पद का संविदा वेतन प्रथम कोष्ठिका के अनुसार 14,200/- प्रतिमाह एकमुश्त होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी भत्ते देय नहीं होंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया एवं चयन समिति का गठन विश्वविद्यालयीन अधिसूचना क्रमांक/स्था.-04/नस्ती क्र. - 144/2020/6414 दिनांक 20.01.2020 अथवा इस संबंध में समय-समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार किया जावेगा।

पृ. क्र./कृ.वि.के./महासमुन्द/2020/93

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

- कुलसचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर।
- निदेशक विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर।
- निज सहायक, माननीय कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर।
- सर्वर प्रभारी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर।
- लेखा एवं स्थापना शाखा के.वि.के, महासमुन्द।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख

दिनांक: 05.05.2020

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख